

## Ambedkarnagar Success Story



<b>Name of Enterprise</b>	Usha Enterprises	
<b>Name of the Entrepreneur</b>	Pankaj Kumar	
<b>Mobile Number</b>	8299684986	
<b>Email ID</b>	<a href="mailto:mauryapankaj330@gmail.com">mauryapankaj330@gmail.com</a>	
<b>Business Sector</b> (eg <i>Wooden/Leather/ Handicraft etc</i> )	Textile	
<b>Product Description</b> (Eg <i>Wooden Toys/Furniture/Décor etc</i> )	Readymade Garment Trading	
<b>No of Employees</b>	<i>Before availing the benefits of GoUP scheme</i>	1
	<i>After availing the benefits of GoUP scheme</i>	3
<b>Production</b> (mention unit eg Kg/Pieces/Meter etc)	<i>Before availing the benefits of GoUP scheme</i>	20 Pieces
	<i>After availing the benefits of GoUP scheme</i>	380 pieces

### Success Brief:

मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं बेरोजगार था जिसके कारण मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। बेरोजगारी के कारण मेरे लिए मुझे और मेरे परिवार के लिए रोटी की व्यवस्था कर पाना बहुत कठिन हो रहा था। मैंने एक कपड़े की दुकान खोलने का विचार किया किन्तु पूंजी के अभाव में मेरा यह सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। एक दिन मैंने समाचार पत्र में देखा कि जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र अम्बेडकरनगर द्वारा एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण देने के लिए विज्ञापन दिया गया था। मैं अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग केंद्र गया तो मुझे एक जनपद एक उत्पाद योजना के बारे में उद्योग विभाग द्वारा विस्तार से समझाया गया। मैंने ऋण के लिए आवेदन कर दिया। जिला उद्योग केंद्र और बैंक की सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे ऋण मिल गया जिससे अपना व्यवसाय करने का मेरा उत्साह दुगना हो गया। है। मैंने उषा इंटरप्राइजेज के नाम से कटेहरी बाजार जिला अंबेडकर नगर में स्थित अपनी फर्म को वृहद् आकार दिया जिससे मेरी दुकान में कपड़ों की मात्रा, गुणवत्ता व वैरायटी में अत्यधिक वृद्धि हुई फलस्वरूप कपड़े लिए ग्राहकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई और मेरी दैनिक आय में कई गुना वृद्धि हुई जिससे मार्केट में मेरी पकड़ मजबूत हुई और परिवार तथा समाज में मेरी इज्जत काफ़ी बढ़ गयी। एक समय जहाँ मैं खुद बेरोजगार था और रोज़ी रोटी के चक्कर में बहुत परेशान वहीं आज मैं खुद तो आर्थिक सशक्त हुआ ही और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दर्जन से अधिक लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो सका। इसके लिए मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार और जिला उद्योग केंद्र अम्बेडकरनगर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिसने एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के माध्यम से ऋण दिलाकर मेरी परेशान और दुःख भरी जिंदगी में खुशियां भर दी।

*\*Note: Success brief should mandatorily include hardship faced by the company before GoUP scheme intervention, kind of intervention and the positive impact created by govt intervention. Please add extra sheet if required.*